

# क्या अल्पसंख्यकवाद ही धर्मनिर्पेक्षता है

महोदय

देश के तीस लाख मुसलमानों के द्वारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने से उत्साहित बीजेपी के नेता भी अपने को यह प्रमाणित करने में गौरव अनुभव कर रही है कि वे भी आज 'प्रचलित' धर्मनिर्पेक्षता के समर्थक हो गये हैं। तभी तो मुस्लिम शिष्ट मंडल के प्रभाव में मोदी जी ने आधी रात को भी उनकी सेवा के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दे दिया है।

ध्यान रहे मुसलमानों की सहायतार्थ पहले से ही सरकार अनेकों योजनाओं के माध्यम से अधिकांश हिन्दुओं के द्वारा दिए जाने वाले राजस्व से संचित राजकोष के अरबों रुपया न्यौछावर कर रही है। "अल्पसंख्यक आयोग" व "अल्पसंख्यक मंत्रालय" को केवल देश के अल्पसंख्यकों विशेषतः मुसलमानों को सरकार द्वारा कैसे कैसे लाभान्वित किया जाये के लिए ही कार्य करना होता है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतना सब "धर्म के आधार" पर घोषित अल्पसंख्यकों के लिए क्यों किया जाता है ? जबकि हमारा देश एक "धर्मनिर्पेक्ष" राष्ट्र है ?

क्या बहुसंख्यकों का दोहन होता रहे और अल्पसंख्यकों को मालामाल किया जाता रहे तो फिर सदभावना व सामाजिक सोहार्द के उपदेश देना बेमानी नहीं होगी ?

बहुसंख्यकों के लिए न तो कोई आयोग है तथा न ही कोई मंत्रालय और ऊपर से संविधान की दुहाई यह है कि हम धर्मनिर्पेक्ष हैं।

फिर भी अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले राजनेता कहते आ रहे हैं कि हम समाज को बांटने या किसी विशेष धर्म या सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते। क्या बहुसंख्यक समाज को इसी प्रकार धोखे में रख कर उनके संवैधानिक व मौलिक अधिकारों को हनन होता रहेगा ?

संपर्क

विनोद कुमार सर्वोदय

नया गंज, गाज़ियाबाद